

AU-1539

M.Com. (Semester—I) Examination
BANKING & INSURANCE SERVICES (Old)
Paper—104

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

Note :— (1) Attempt **ALL** questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. (a) Explain Automatic Teller Machine (ATM) and Credit Cards and their impact on performance of Banking. 16

OR

- (b) Explain the function of Commercial Bank. Explain the current trends in giving loans. 16

2. (a) What are functions of RBI ? Explain its role in development of Indian Economy. 16

OR

- (b) Explain the Resources of Rural Banks. Explain the role of Rural Banks in Rural Development in India. 16

3. (a) What is Insurance ? Explain the general principles of Insurance. 16

OR

- (b) Explain the relevance of Insurance in providing social security to individual and business. Is insurance a social compulsion ? Discuss. 16

4. (a) State the importance of Crop-Insurance in India. What are the peculiarities in Crop-Insurance ? Suggest the measures to remove the peculiarities. 16

OR

- (b) Explain the concept of Live Stock Insurance. What is the necessity of Live Stock Insurance in India ? Write the benefits to policy holder. 16

5. (a) Explain the objectives, function and working of Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI). 16

OR

- (b) Explain the role and importance of Life-Insurance in Economic Development of Country. 16

M.Com. (Semester—I) Examination
BANKING & INSURANCE SERVICES (Old)
Paper—104

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) स्वयंचलीत तात्काळ शोधन यंत्र (ATM) आणि प्रत्यय कार्ड (Credit Card) स्पष्ट करा आणि बँकेच्या कार्यक्षमतेवर त्याचे प्रभाव स्पष्ट करा. 16

किंवा

- (ब) व्यापारी बँकाची कार्य स्पष्ट करा. कर्ज देण्याची प्रचलीत प्रवृत्ती (trend) स्पष्ट करा. 16

2. (अ) भारतीय रिझर्व बँकेची कार्य कोणती आहेत ? आर्थिक विकासात भारतीय रिझर्व बँकेची भूमिका स्पष्ट करा. 16

किंवा

- (ब) ग्रामिण बँकेचे स्रोत स्पष्ट करा. भारताचा ग्रामिण विकासातील ग्रामिण बँकेची भूमिका स्पष्ट करा. 16

3. (अ) विमा म्हणजे काय ? विम्याची सर्वसाधारण तत्वे स्पष्ट करा. 16

किंवा

- (ब) व्यक्ती आणि व्यवसायाला सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्यामध्ये विम्याची समर्पकता स्पष्ट करा. विमा सामाजीक दृष्ट्या अनिवार्य आहे का ? भाष्य करा. 16

4. (अ) भारतात पीक विम्याचे महत्व सांगा. पीक विमा योजनेत कोणत्या उणिवा आहेत ? त्या कर करण्यासाठी उपाय सुचवा. 16

किंवा

- (ब) पशुधन विमा म्हणजे काय ? भारतात त्याची काय आवश्यकता आहे. पशुधन विमा घेणाऱ्याला काय फायदा होतो ते स्पष्ट करा. 16

5. (अ) भारतीय औद्योगिक वित्त व गुंतवणुक महामंडळाचे (ICICI) उद्देश्य व कार्य स्पष्ट करा. 16

किंवा

- (ब) देशाच्या आर्थिक विकासात जीवन विम्याची भूमिका व महत्व स्पष्ट करा. 16

AU-1539

M.Com. (Semester—I) Examination
BANKING & INSURANCE SERVICES (Old)
Paper—104

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्न कीजिये।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (अ) स्वयंचलित तत्काल भुगतान यंत्र (ATM) एवं साख कार्ड (Credit Card) स्पष्ट कीजिये तथा अधिकोष की कार्यक्षमता पर उनका प्रभाव स्पष्ट कीजिये। 16

अथवा

- (ब) व्यापारी अधिकोष के कार्य स्पष्ट कीजिये। अधिकोष की ऋण देने की प्रवृत्ति (trend) स्पष्ट कीजिये। 16

2. (अ) भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य स्पष्ट कीजिये। भारत के आर्थिक विकास में उसकी भूमिका स्पष्ट कीजिये। 16

अथवा

- (ब) ग्रामीण अधिकोष के स्रोत स्पष्ट कीजिये। भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण अधिकोष की भूमिका स्पष्ट कीजिये। 16

3. (अ) बीमा याने क्या ? बीमा के सामान्य तत्व स्पष्ट कीजिये। 16

अथवा

- (ब) व्यक्ति एवं व्यवसाय को सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करने के लिए बीमा की सम्पर्कता स्पष्ट कीजिये। क्या बीमा सामाजिक दृष्टि से अनिवार्य है ? भाष्य कीजिये। 16

4. (अ) भारत में फसल बीमा का क्या महत्व है ? बताइये। फसल बीमा योजना में कौनसी त्रुटियाँ हैं ? त्रुटियाँ दूर करने के उपाय सुझाइये। 16

अथवा

- (ब) पशुधन बीमा याने क्या ? भारत में पशुधन की क्यों आवश्यकता है ? पशुधन बीमा लेने से क्या लाभ होता है ? 16

5. (अ) भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश महामंडल (ICICI) के उद्देश्य तथा कार्य स्पष्ट कीजिये। 16

अथवा

- (ब) देश के आर्थिक विकास में जीवन बीमा की भूमिका एवं महत्व स्पष्ट कीजिये। 16

